



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 22-मई 28, 2004 (ज्येष्ठ 1, 1926)

No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 22-MAY 28, 2004 (JYAISTHA 1, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I-खण्ड 2

[PART I-SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अप्पॉइन्टमेंटों, प्रमोशनलियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 6 मई, 2004

सं० आर एस/1158/स्था० (सामान्य)—श्री तपन राय, उप-निदेशक (एस) को माननीय मंत्री (कोयला और खान), सुश्री ममता बनर्जी के दैनिक कार्य में सहायता करने के लिए इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 20-1-2004 द्वारा माननीय मंत्री (कोयला और खान) के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन मिलने तक उन्हें 20-1-2004 (अपराह्न) से इस सचिवालय में उनके कार्य से मुक्त किया गया था।

2. चूंकि मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने माननीय मंत्री (कोयला और खान), सुश्री ममता बनर्जी के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में उप-सचिव के स्तर पर उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है, इसलिए उनके द्वारा पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्षों को अवधि के लिए अथवा उस अवधि तक जब वह मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी के रूप

में कार्य करना बंद कर देते हैं अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, उन्हें मंत्री (कोयला और खान) के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति ग्रहण करने के लिए 20-1-2004 (अपराह्न) से इस सचिवालय में उनके कार्य से मुक्त किया जाता है। मंत्री (कोयला और खान) के विशेष कार्य-अधिकारी के रूप में श्री तपन राय की नियुक्ति मंत्री के कार्य-काल के साथ ही समाप्त होगी।

राम बिहारी गुप्ता, अवर सचिव

लोकसभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 अप्रैल 2004

सं० एफ 15/20/2003/ए एन-I/जी एन-5150/2004—
अध्यक्ष महोदय, 11 और 12 जनवरी, 2003 को हुई मौखिक, 13 से 15 जून, 2003 तक लिखित तथा साथ-साथ भाषांतरण परीक्षाओं और 18 जुलाई, 2003 को हुए वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर निम्नलिखित व्यक्तियों को

लोक सभा सचिवालय में संसदीय भाषांतरकार ग्रेड-II (क्षेत्रीय भाषाएं) के पद हेतु चयन होने के परिणामस्वरूप उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से अगले आदेशों तक 8000-275-13500 रु० के वेतनमान में संसदीय भाषांतरकार ग्रेड-II (क्षेत्रीय भाषाएं) के ग्रेड में स्थानापन्न आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं०	नाम	भाषा	नियुक्ति की तारीख
1.	नफीस अहमद	उर्दू	1-4-2004 (पूर्वाह्न)
2.	कु० प्रीतिश्री मोहनती उड़ीया	उड़ीया	12-4-2004 (पूर्वाह्न)

2. वे अपनी-अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए संसदीय भाषांतरकार ग्रेड-II के पद पर परीवीक्षाधीन रहेंगे।

3. उनकी संसदीय भाषांतरकार ग्रेड-II के ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता, दिनांक 20-12-2003 के आर एंड सी एस आदेश संख्या पीडीए-1076/2003 के अनुसार विनियमित की जाएगी।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

सं० एफ 15/20/2003/ए एन-1/जीएन-5151/2004 अध्यक्ष महोदय, 30-31 अगस्त से 2 सितम्बर, 2003 के बीच हुई मौखिक, लिखित तथा साथ-साथ भाषांतरण परीक्षाओं और 20-10-2003 को हुए वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर श्री मोहन परसाई को लोक सभा सचिवालय में संसदीय भाषांतरकार ग्रेड-II (नेपाली) के पद हेतु चयन होने के परिणामस्वरूप 8000-275-13500 रु० के वेतनमान में संसदीय भाषांतरकार ग्रेड-II (नेपाली) के ग्रेड में स्थानापन्न आधार पर 15-4-2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. वह 15-4-2004 से 14-4-2006 तक दो वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन रहेंगे।

3. उनकी संसदीय भाषांतरकार ग्रेड-II में परस्पर वरिष्ठता, दिनांक 20-12-2003 के आर एंड सी एस आदेश संख्या पीडीए-1076/2003 के अनुसार विनियमित की जाएगी।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2004

सं० फा० 1(5)/65-प्रशासन-अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री गोपाल दास तलवार, अनुभाग अधिकारी, संसदीय कार्य मंत्रालय को दिनांक 31-3-2004 को अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त किया जाता है।

एम० एस० जोषड़ा, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 2004

सं० ए-19(592)/90-प्रशा०-II-अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, योजना आयोग के श्री एस० के० शर्मा, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (आई ई एस के ग्रेड III), दिनांक 30-4-2004 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो रहे हैं। परिणामस्वरूप, उन्होंने दिनांक 30-4-2004 (अपराह्न) से उक्त पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

के० के० छावड़ा, अवर सचिव

सं० एफ 6 (1613)/94-प्रशासन-1-अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप, आई०ई०एस० के एच०ए० जी० अधिकारी तथा योजना आयोग में सलाहकार डा० एन० जे० कुरियन दिनांक 30-4-2004 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं।

के० के० छावड़ा, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 2004

सं० ए-37011/2/2004-प्रशा० सी० ए० एस०-सक्षम अधिकारी ने श्री एच०एस० ठाकुर, अनुभाग अधिकारी, विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को स्वीकार कर लिया। दिनांक 1 मार्च 2004 (पूर्वाह्न) से उन्होंने उस पद के अपने कार्यभार को छोड़ दिया है और वे उपरोक्त तारीख को सरकारी सेवा निवृत्त किए जाते हैं।

अनिल कटियार, उप सरकारी परामर्शी

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 2004

सं० आई-14011/21/2003-आई०पी०एस०-1-रा-ट्र-पति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन बिहार (अविसाजित) राज्य पुलिस के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम 54 के उपविनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत

तत्कालीन बिहार (अविभाजित) संवर्ग प्रदान करते हैं। यह नियुक्तियाँ अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी :—

चयन सूची 2003

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	प्रेम प्रकाश पाण्डेय	02-06-1952
2.	विनय कुमार पाण्डेय	01-09-1953
3.	बलदेव प्रसाद	26-07-1962
4.	ध्रुव नारायण गुप्ता	01-09-1950

राज्य के विभाजन के फलस्वरूप इन अधिकारियों के बिहार या झारखण्ड के संवर्गों में आवंटन के आदेश इस अधिसूचना के बाद किए जाएंगे।

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

सं० आई-14011/21/2003-आई०पी०एस०-I—भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 08-03-2004 को चयन समिति की दिनांक 24-12-03 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई वर्ष 2000 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के तत्कालीन अविभाजित बिहार संवर्ग में वर्ष 2000 में चार मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु तत्कालीन अविभाजित बिहार राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	प्रेम प्रकाश पाण्डेय	02-06-1952
2.	विनय कुमार पाण्डेय	01-09-1953
3.	बलदेव प्रसाद	26-07-1962
4.	ध्रुव नारायण गुप्ता	01-09-1950

राज्य के विभाजन के फलस्वरूप इन अधिकारियों के बिहार या झारखण्ड के संवर्गों में आवंटन के आदेश इस अधिसूचना के लिए वाद किये जायेंगे।

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 2004

सं० 20/जी/2522-प्रशा-I—राष्ट्रपति, श्री राजीव कुमार, आई०एफ०एस० (हि०प्र० 88) को गृह मंत्रालय में निदेशक के रूप में दिनांक 30 अप्रैल, 2004 के अपराह्न से पांच वर्षों के अथवा अगले आदेशों के होने तक, जो भी पहले हों, के लिए नियुक्त करते हैं।

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 2004

सं० 14031/1/2003-यू०टी०एस०—संयुक्त अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग के 1977 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री शिव कुमार चौधरी, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, 30 अप्रैल, 2004 के अपराह्न से सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

के०के० कालरा, अवर सचिव

सं० 14031/1/2003-यू०टी०एस०—संयुक्त अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग के 1986 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री एस०पी० सिंह, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, 30 अप्रैल, 2004 के अपराह्न से सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

के०के० कालरा, अवर सचिव

कार्मिक, लोक-शिक्षा और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 2004

सं० 13017/1/2000-अ. भा.से. (I)—केन्द्रीय सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा असम-मेघालय और गुजरात सरकारों की सहमति से, श्री अविनाश जोशी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आर. आर.: 94) की असम-मेघालय से गुजरात में दिनांक 30-10-2003 से 1-12-2003 तक अंतरसंवर्ग प्रतिनियुक्ति पर अधिक समय रहने (ओवर स्टे) की अवधि को एतद्द्वारा नियमित करती है।

के० के० शर्मा, डैस्क अधिकारी

दिनांक 5 मई 2004

सं० 13017/40/97-अ० भा० से०-(I)—केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा आंध्र प्रदेश सरकार की सहमति से डॉ० जी० एस० जी० अयंगर, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आर० आर० : 87) की, मणिपुर-त्रिपुरा से आंध्र प्रदेश में दिनांक 10-7-2003 से 8-9-2003 तक अंतरसंवर्ग प्रतिनियुक्ति पर अधिक समय रहने (ओवर स्टे) की अवधि को एतद्द्वारा नियमित करती है।

के० के० शर्मा, डैस्क अधिकारी

दिनांक 11 मई 2004

सं० 13013/5/2001-अ० भा० से०-(I)—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम 1954 के नियम 6 के अंतर्गत वर्ष, 2000 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफल रहे निम्नलिखित उम्मीदवारों को, उनके नामों के सामने दर्शाई

गई तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं। इन उम्मीदवारों के संवर्ग-आवंटन बाद में अधिसूचित किए जाएंगे।

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति की तारीख
1	2	3
(सर्वश्री)		
1.	विजयलक्ष्मी बिदारी (सुश्री)	02-09-2001(अपराह्न)
2.	शाहला निगर (सुश्री)	02-09-2001(पूर्वाह्न)
3.	गुरकीरत कृपाल सिंह	02-09-2001(अपराह्न)
4.	स्मिता दास (सुश्री)	02-09-2001(पूर्वाह्न)
5.	अजय कुमार शुक्ला	02-09-2001(पूर्वाह्न)
6.	श्रीधर विश्वोलु	02-09-2001(पूर्वाह्न)
7.	आरती कवर (सुश्री)	02-09-2001(पूर्वाह्न)
8.	विकास गुप्ता	02-09-2001(अपराह्न)
9.	अमिताभ कौशल	02-09-2001(पूर्वाह्न)
10.	परदेशी श्रीकर केशव	02-09-2001(पूर्वाह्न)
11.	दर्पण जेठ	02-09-2001(अपराह्न)
12.	निधि पांडेय (सुश्री)	02-09-2001(पूर्वाह्न)
13.	निधि मणि त्रिपाठी (सुश्री)	2-9-2001(पूर्वाह्न)
14.	अनु अग्रवाल (सुश्री)	14-12-2001(पूर्वाह्न)
15.	कृष्ण कांत पाठक	2-9-2001(पूर्वाह्न)
16.	अंकिता मिश्रा (सुश्री)	2-9-2001(पूर्वाह्न)
17.	पी० उमामाथ	2-9-2001(पूर्वाह्न)
18.	टी० एन० बेंकटेश	2-9-2001(पूर्वाह्न)
19.	नवनीत मोहन कोठारी	2-9-2001(पूर्वाह्न)
20.	आर० मीनाक्षी सुन्दरम	2-9-2001(पूर्वाह्न)
21.	अश्विनी कुमार यादव	2-9-2001(पूर्वाह्न)
22.	संजीव वर्मा	2-9-2001(पूर्वाह्न)
23.	एकरूप कौर (सुश्री)	2-9-2001(पूर्वाह्न)
24.	निपुण विनायक	2-9-2001(अपराह्न)
25.	मनदीप के० भंडारी	2-9-2001(पूर्वाह्न)
26.	नवीन जैन	2-9-2001(पूर्वाह्न)
27.	शालिनी षंडित (सुश्री)	2-9-2001(पूर्वाह्न)
28.	लोखंडे प्रशांत सीताराम	2-9-2001(पूर्वाह्न)
29.	अपर्णा यू० (सुश्री)	2-9-2001(पूर्वाह्न)
30.	क्रिस्टिना जोथनपरी चोंग्यु (सुश्री)	2-9-2001(पूर्वाह्न)
31.	नीतू कुमारी प्रसाद (सुश्री)	6-9-2001(पूर्वाह्न)
32.	मयंक वारवाडे	2-9-2001(पूर्वाह्न)
33.	जुज्जवरण बालाजी	2-9-2001(पूर्वाह्न)
34.	विजय नेहरा	2-9-2001(पूर्वाह्न)
35.	पंकज यादव	2-9-2001(अपराह्न)

1	2	3
सर्वश्री		
36.	आर० सेत्वम	3-9-2001(पूर्वाह्न)
37.	परिकिण्डला नरहरि	2-9-2001(पूर्वाह्न)
38.	अनवालन पी०	2-9-2001(पूर्वाह्न)
39.	कौल संजय मूलचंद	2-9-2001(पूर्वाह्न)
40.	संतनगोपालन आर०	2-9-2001(पूर्वाह्न)
41.	जे० रवि शंकर	10-9-2001(पूर्वाह्न)
42.	राजेश कुमार	10-9-2001(पूर्वाह्न)
43.	शशि भूषण लाल सुशील	2-9-2001(पूर्वाह्न)
44.	राजेन्द्र रतनू	2-9-2001(पूर्वाह्न)
45.	एस० वी० एस० रंग राव	2-9-2001(पूर्वाह्न)
46.	दावंगरे प्रजिता रामचन्द्र (सुश्री)	2-9-2001(पूर्वाह्न)
47.	सलीम पी० वी०	2-9-2001(पूर्वाह्न)
48.	आर० किरलोश कुमार	5-9-2001(पूर्वाह्न)
49.	स्वामी डी० वी०	2-9-2001(अपराह्न)
50.	विजय दहिया	2-9-2001(अपराह्न)
51.	अमनीत रमन (सुश्री)	2-9-2001(पूर्वाह्न)
52.	प्रियंक भारती	2-9-2001(पूर्वाह्न)
53.	आर० लालवेना	2-9-2001(पूर्वाह्न)
54.	अभिनव चन्द्र	2-9-2001(पूर्वाह्न)
55.	नंदिता गुप्ता (सुश्री)	2-9-2001(अपराह्न)
56.	मोहन लाल भीणा	2-9-2002(पूर्वाह्न)

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

सं० 13017/12/2003-अ० भा० से० (I)—केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल सरकारों की सहमति से, एतद्वारा श्री दयाल सिंह नाथ, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एस० सी० एन०) और श्री जनाराम, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एस० सी० एन०) को, भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग से भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तरांचल संवर्ग में, 17-06-2002 से तीन वर्ष की अवधि के लिए, प्रतिनियुक्ति के संबंध में कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करती है।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 2004

सं०-14013/5/2000-अ० भा० से० (III)—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के (परीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग के निम्नलिखित सदस्य को

उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :—

क्रम संख्या	नाम	वैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री एस०आर० चोरे	1972	08.12.78
अकील अहमद, उप सचिव			

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च 2004

सं० 13 (फा० सं० ए० 38013/7/2003-प्रशा०-I)—
राजस्व विभाग में अवर सचिव के रूप में तैनात केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री आर० एन० किरतानिया अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 29 फरवरी, 2004 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त किए जाते हैं।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 अप्रैल 2004

सं० 21 (फा० सं० 5029/2004-प्रशा० 1)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25-3-2004 के का० ज्ञा० सं० 21/10/2001-सी एस-I के अनुसरण में, राष्ट्रपति के० सं० से० के वित्त संवर्ग के निम्नलिखित नियमित अनुभाग अधिकारियों को, जो इस समय अवर सचिव (इन-सीटू) के रूप में कार्य कर रहे हैं, दिनांक 25-3-2004 से और अगले आदेश आने तक, राजस्व विभाग में 10,000-325-15,200 रु० के वेतनमान में के० सं० से० के ग्रेड-I में/तदर्थ आधार पर अवर सचिव नियुक्त करते हैं।

क्र० सं०	अवर सचिव का नाम	सी एस० एल० सं०
1.	श्रीमती एम० चन्द्रहासन	4022
2.	श्री आर० एस० दहिया	4026
3.	श्री शशि भूषण कौशिक	4052
4.	श्री भगवान सिंह	4175
5.	श्री पी० विनायगम	4210
6.	श्री वी० एन० गावा	4216
7.	श्री आर० जी० छावड़ा	4234
8.	श्रीमती वसन्ता रामा कृष्णन	4237
9.	श्री स्वर्ण दास	4343
10.	श्री वी० पी० अरोड़ा	4679
11.	श्री एस० के० मोहन्ति	4694
12.	श्री अवतार सिंह	4797
13.	श्री अंगना राम	4835
14.	श्रीमती सुषमा कटारिया	4868
15.	श्री बिमल कुजूर	5019
16.	श्री के० सी० भीमा	5524

2. उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने का अथवा नियमित नियुक्ति की चयन-सूची में शामिल होने का अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) की वरिष्ठता के दावे का कोई अधिकार नहीं देती।

आर० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 2004

सं० ए-12011/2/2004-प्रशा०-II—राष्ट्रपति, श्री के० रघुरामन, जो वर्तमान में वित्त संवर्ग के केन्द्रीय सचिवालय आशु-लिपिक सेवा में प्रधान निजी सचिव (इनसीटू) है, को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 26 अप्रैल 2004 (पूर्वाह्न) से 30 जून 2004 तक की अवधि के लिए 10,000-325-15,200/- रु० के वेतनमान में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री के० रघुरामन की पदोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और इससे उन्हें प्रधान निजी सचिव के पद/ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

ईश्वर चन्द काम्बोज, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 2004

फाइल सं० ए-32014/2/04-संवर्ग—भारत के राष्ट्रपति सहर्ष केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक श्री अरुण बनर्जी को 5 मई 2004 के पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं। अनुभाग अधिकारी ग्रेड में तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों पर होगी :-

(i) उपरोक्त तदर्थ पदोन्नति पूर्णतः काम चलाऊ उपाय के रूप में की जायेगी और इससे इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ii) तदर्थ व्यवस्था वरिष्ठता कोटा/सीमित विभागीय प्रति-मोहिता परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाने तक जारी रहेगी। तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के इन दोनों श्रेणियों में से किसी में भी नियमित नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होने की दशा में नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध हो जाने पर उन्हें सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

(iii) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति अगले आदेशों तक उसी संवर्ग में कार्यरत रहेंगे। जबकि प्रशासनिक साप्ताहिक आभ्युक्तता करने पर या

केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की पुनः संरचना के फल-स्वरूप अनुभाग अधिकारी ग्रेड की परिवर्तित संख्या बांटा करके समग्र उन्हें किसी अन्य संवर्ग में अन्तर्गत किया जा सकता है।

एस० दास०, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 मई 2004

फा० सं० ए-32014/2/2004-संवर्ग—भारत के राष्ट्रपति सहर्ष केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्रीमती शैलजा जोशी को 8 अप्रैल, 2004 के पूर्वाह्न से तदर्थ रूप में अवर सचिव नियुक्त करते हैं। अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों पर होगी :—

- (i) अधिकारी उसी मंत्रालय/विभाग में कार्य करते रहेंगे जहाँ वे वर्तमान में कार्यरत हैं।
- (ii) तदर्थ पदोन्नति से केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड-I (अवर सचिव) में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने का चयन श्रेणी में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- (iii) तदर्थ आधार पर नियुक्त अधिकारियों को स्थानांतरण के अतिरिक्त इस दौरान प्रशासनिक तत्कालिक आवश्यकता पड़ने पर जब कभी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को विशिष्ट संख्या में पद आवंटित किए जाते हैं, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में जाना पड़ सकता है।

2. श्रीमती जोशी को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में तैनात किया जाता है।

एस० दास, अवर सचिव

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 2004

सं० ए-12023/02/2002-व्य०-1—राष्ट्रपति, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को उसी संवर्ग में आगामी आदेशों तक तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	मंत्रालय/विभाग कार्यालय जहाँ कार्य कर रहे हैं।
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	एस० के० श्रीवास्तव	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
2.	एम० सी० शर्मा	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
3.	जयरेन्द्र सिंह	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

1	2	3
4.	बार० के० श्रीवास्तव	लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय
5.	बी० बी० विश्वास	लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय
6.	बी० के० श्रीवास्तव	भारी उद्योग विभाग
7.	राहुल माहना	आर्थिक सहायता का कार्यालय
8.	दिनेश कुमार	विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय
9.	सैमसुल हुक	टैरिफ आयोग
10.	ए० के० मिश्र	टैरिफ आयोग
11.	पुनीत शर्मा	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
12.	दत्तपत सिंह	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
13.	एस० पी० चोपड़ा	लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय
14.	एस० आर० मीणा	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
15.	एस० सी० सक्सेना	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
16.	एस. एल. अग्रवाल	भारी उद्योग विभाग
17.	श्रीमती उमा माथुर	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

2. अनुभाग अधिकारी के ग्रेड पर उक्त अधिकारियों की पदोन्नति बिल्कुल तदर्थ आधार पर है और इससे अधिकारियों को उक्त ग्रेड में अनिश्चितकाल तक कार्य करते रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 मार्च, 2004 के का० जा० सं० 21/9/2004-सी० एस० I में निर्धारित की गई शर्तों के भी अधीन है।

ज० ज० कौर, अवर सचिव

दिनांक 12 अप्रैल 2004

सं० ए-19011/383/90-व्य० 1—अपना केन्द्रीय कार्य-काल पूरा करने के परिणामस्वरूप श्री ए० ई० अहमद, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एम० टी० : 76) ने दिनांक 11 अप्रैल, 2004 (अप०) से औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

श्री ए० ई० अहमद को 8 और 9 मई, 2004 को पूर्ण अवकाश के कारण बाद में लगने वाली छुट्टियों की अनुमति के साथ 12 अप्रैल, 2004 से 7 मई, 2004 तक 26 दिवसों के लिए अर्जित अवकाश प्रदान किया जाता है। अर्जित अवकाश की समाप्ति पर श्री ए० ई० अहमद की सेवाएं उनके मूल संवर्ग अर्थात् मणिपुर राज्य सरकार को सौंपी जाती है।

ज० ज० कौर, अवर सचिव

दिनांक 15 अप्रैल 2004

13-04-2004 के पूर्वानु से अगले आदेशों तक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में उप निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

संख्या ए-12023/01/2004 व्य०-I—राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा की अधिकारी सुश्री मनीषा सेनसर्मा को

ज० ज० कौर, अवर सचिव

दिनांक 21 अप्रैल 2004

सं० ए-12023/02/2002/व्य०-I—राष्ट्रपति, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को उसी संवर्ग में अगले आदेशों तक तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं :-

क्र० सं०	नाम	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय जहाँ तैनात किया गया है
	सर्व/श्री	
1.	एस० के० श्रीवास्तव	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
2.	एस० सी० शर्मा	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
3.	अमरेन्द्र सिंह	औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग
4.	आर० के० श्रीवास्तव	लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय
5.	बी० बी० बिस्वास	लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय
6.	वी० के० श्रीवास्तव	भारी उद्योग विभाग
7.	राहुल माहना	आर्थिक सलाहकार का कार्यालय
8.	दिनेश कुमार	विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय
9.	समसुल हक	टैरिफ आयोग
10.	एस० पी० चोपड़ा	लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय
11.	ए० के० मिश्रा	टैरिफ आयोग
12.	पुनीत शर्मा	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
13.	दलपत सिंह	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
14.	एस० आर० मीना	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
15.	एस० सी० सक्सेना	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
16.	एस० एल० अग्रवाल	भारी उद्योग विभाग
17.	श्रीमती उमा माथुर	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

2. उपर्युक्त अधिकारियों की अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में उक्त तदर्थ नियुक्तियां बिल्कुल तदर्थ आधार पर हैं और इससे उपर्युक्त अधिकारियों को ग्रेड में लगातार बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा साथ ही ये पदोन्नतियां कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 मार्च, 2004 में दी गई शर्तों के अधीन होंगी।

3. यह इस विभाग की दिनांक 7 अप्रैल, 2004 की सब संख्यक अधिसूचना के अतिरूपण में है।

ज० ज० कौर, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 2004

सं० 5/2004 (फा० सं० ए-42011/42/2003-स्था०)---
राष्ट्रपति, कर्मिक व प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24 मार्च, 2004 के कार्यालय ज्ञापन सं० 21/11/2004-सी०एस०-I के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अवर सचिवों (स्व-स्थाने) को दिनांक 24 मार्च, 2004 से तदर्थ आधार पर वस्त्र मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं :—

क० सं० अधिकारी का नाम

- | क० सं० | अधिकारी का नाम |
|--------|----------------|
| | सर्वश्री |
| 1. | ए० के० शर्मा |
| 2. | वी० के० गुप्ता |
| 3. | एस० के० अरोरा |
| 4. | ओमा नन्द |
| 5. | पी० एल० वर्मा |
| 6. | एन० के रघुनाथन |

2. उपर्युक्त अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

- (1) ये अधिकारी फिलहाल इसी मंत्रालय/विभाग में कार्य करते रहेंगे।
- (2) इस तदर्थ पदोन्नति से इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा सी०एस०एस० के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा।
- (3) जब कभी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में विशिष्ट संख्या में पदों का आवंटन होगा तो स्थानांतरण के अतिरिक्त, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण बीच में जरूरी होने पर उन्हें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में भेजा जा सकता है।

3. कर्मिक व प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24 मार्च, 2004 के कार्यालय ज्ञापन सं० 21/11/2004-सी०एस०-I के अनुसरण में अवर सचिवों के जिन पदों को इन अधिकारियों के लिए उनके उस पद पर उस स्थान पर बने रहने तक अवर सचिवों के पद में अपग्रेड किया गया था, उन्हें त्यागना होगा और अब जितनी तदर्थ नियुक्तियां अधिसूचित की गई हैं, यह माना जाएगा कि अवर सचिवों के पदों का तदनुसूची संख्या में सृजन कर दिया गया है।

आर० सुब्रमण्यम, निदेशक

सं० 6/2004(फा० सं० ए-42011/42/2003-स्थापना)---
राष्ट्रपति, कर्मिक व प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24 मार्च, 2004 के कार्यालय ज्ञापन सं० 21/11/2004-सी०एस०-I के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित उप सचिवों (स्व-स्थाने) को दिनांक 24 मार्च 2004 से तदर्थ आधार पर वस्त्र मंत्रालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं :—

क० सं० अधिकारी का नाम

- | क० सं० | अधिकारी का नाम |
|--------|---------------------|
| 1. | सुश्री सरिता मिश्रा |
| 2. | श्री प्रेम सागर |

2. उपर्युक्त अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

- (1) ये अधिकारी फिलहाल इसी मंत्रालय/विभाग में कार्य करते रहेंगे।
- (2) इस तदर्थ पदोन्नति से इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा।
- (3) जब कभी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में विशिष्ट संख्या में पदों का आवंटन होगा तो स्थानांतरण के अतिरिक्त, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण बीच में जरूरी होने पर उन्हें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में भेजा जा सकता है।

3. कर्मिक व प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24 मार्च, 2004 के कार्यालय ज्ञापन सं० 21/11/2004-सी०एस०-I के अनुसरण में अवर सचिवों के जिन पदों को इन अधिकारियों के लिए उनके उस पद पर उस स्थान पर बने रहने तक उप सचिवों के पद में अपग्रेड किया गया था, उन्हें त्यागना होगा और अब जितनी तदर्थ नियुक्तियां अधिसूचित की गई हैं, यह माना जाएगा कि उप सचिवों के पदों का तदनुसूची संख्या में सृजन कर दिया गया है।

आर० सुब्रमण्यम, निदेशक

कोयला और खान मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 2004

सं० 12/3/04-ए०एस०ओ०---राष्ट्रपति जी द्वारा श्री तपन राय, उप निदेशक, राज्य सभा सचिवालय को दिनांक 21-01-04 से चार वर्ष की अवधि तक अथवा जब तक कि उनका कार्यकाल कोयला और खान मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में समाप्त न हो जाए अथवा अगले आदेश जारी होने तक इसमें जो भी पहले हो, की अवधि के लिए कोयला और खान मंत्री (सुश्री ममता बनर्जी) के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में उप सचिव के समतुल्य पद पर नियुक्त किया जाता है। श्री तपन राय की मंत्री जी के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्ति मंत्री जी के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जायेगी।

टी० के० जोष, निदेशक

सं० 12/5/04-ए० एस० ओ०—राष्ट्रपति जी द्वारा श्री एस० के० थाडे, भा० प्र० से० (प० बं० : 89) को दिनांक 28-4-2004 (अपराह्न) से पाँच वर्ष की अवधि तक अथवा जब तक कि उनका कार्यकाल कोयला और खान मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में समाप्त न हो जाए अथवा अगले आदेश जारी होने तक इसमें जो भी पहले हो, की अवधि के लिए कोयला और खान मंत्री (सुश्री ममता बनर्जी) के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में निदेशक के समतुल्य पद पर नियुक्त किया जाता है। श्री एस० के० थाडे की मंत्री जी के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्ति मंत्री जी के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगी।

टी० के० घोष, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 2004

सं० सी-20011/1/2001-प्रशा०—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 मार्च, 04 के का० ज्ञा० सं० 21-9-04 के० सचि० I के अनुपालन में तथा उसमें उल्लिखित शर्तों तथा निबंधनों के अधीन राष्ट्रपति जी इस विभाग के निम्नलिखित सहायकों को दिनांक 25 मार्च 04 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक तदर्थ आधार पर 6900-200-10500/-रु० के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं—

1. श्रीमती गीता मिश्रा
2. श्री विजय सिंह
3. श्री जसवीर सिंह
4. श्री पी० के० भटनागर
5. श्री एस० के० बंसल
6. श्रीमती सुभाष शर्मा

गार्गी मुखर्जी, निदेशक

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2004

सं० 2(2)/2004-स्थापना—इस्पात मंत्रालय में इस समय वैयक्तिक उन्नयन आधार पर सचिव (स्व-स्थाने) के रूप में स्थापनापन्न आधार पर कार्य कर रहे केन्द्रीय सचिवालय सेवा संदर्भ निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों ने 25 मार्च 2004 से इस नियुक्ति को छोड़ दिया है।

क्रम सं० अधिकारी का नाम

1. सर्वश्री शिव कुमार
2. श्रीमती सुनीता
3. ए० डी० राय
4. टी० वी० ए० राम
5. रणजीत सिंह तथा
6. ए० के० एक्का

राष्ट्रपति, उल्लिखित अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I की चयन सूची में शामिल होने पर उन्हें 25 मार्च 2004 से अवर सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक अथवा आगे आदेश होने तक, जो भी पहले हो, अवर सचिव पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

इस तदर्थ नियुक्ति को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में अनिश्चित काल तक जारी रखने के अधिकार या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल करने अथवा वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

बाबू राम, अवर सचिव

विनिवेश मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 मई 2004

सं० 19011/7/2000-प्रशा०—राष्ट्रपति, विनिवेश मंत्रालय में उप सचिव (स्व-स्थाने) श्री एस० के० बन्दोपाध्याय को, विनिवेश मंत्रालय में पूर्णतया तदर्थ आधार पर उप सचिव के रूप में 12,000-375-16,500 रुपए के वेतनमान में 25 मार्च, 2004 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

2. श्री बन्दोपाध्याय के लिए व्यक्तिगत रूप से उप सचिव के स्तर तक प्रोन्नत किए गए अवर सचिव के पद को श्री बन्दोपाध्याय द्वारा त्याग दिया जाएगा और उप सचिव का एक पद 25-3-2004 से सृजित हुआ माना जाएगा।

3. उप सचिव के वर्ग में श्री बन्दोपाध्याय की तदर्थ प्रोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और इससे उनको इस वर्ग में अनिश्चित काल के लिए बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए प्रवर सूची में सम्मिलित करने अथवा चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। यह प्रोन्नति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 मार्च, 2004 के का० ज्ञा० सं० 21/11/2004-सी एस-I में निर्धारित शर्तों के भी अभ्यधीन है।

जे० के० चट्टोपाध्याय, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 मई 2004

सं० 09(3)/2004 प्रशा०—राष्ट्रपति, व्यय विभाग के दिनांक 26 अप्रैल 2004 के का० ज्ञा० सं० ए०-32022/1/2004-सीएस के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के प्रधान निजी सचिव (स्व-स्थाने) श्री मनिन्दर जोत सिंह को विनिवेश मंत्रालय में पूर्णतया तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में 10,000-325-15,200/-रुपए के वेतनमान में 31 मार्च 2004 के अपराह्न से नियुक्त करते हैं।

एस० के० बन्दोपाध्याय, उप सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 2004

सं० ए-43021/34/98-प्रशासन—राष्ट्रपति, श्री बी० एच० कर्दम और श्री बशीर अहमद, वरिष्ठ तकनीकी सहायक ग्रेड-II को 26 फरवरी, 2004 के पूर्वानुज्ञा से एक वर्ष की अवधि या नियमित पदधारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, उपभोक्ता मामले विभाग में पूर्णतः तदर्थ आधार पर 6500-200-10,500 रु० के वेतनमान में वरिष्ठ तकनीकी सहायक ग्रेड-I (समूह 'ख' राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उक्त तदर्थ नियुक्ति से श्री बी० एस० कर्दम और श्री बशीर अहमद की वरिष्ठ तकनीकी सहायक ग्रेड-I के ग्रेड में नियमित नियुक्ति, वरिष्ठता, स्थायीकरण आदि के कोई दावे का अविचार प्राप्त नहीं होगा।

एस० के० नायक, अवर सचिव

सं० ए-12015/3/2001-प्रशासन—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21-4-2004 के कार्यालय ज्ञापन सं० 4/7/2003-सी०एस०-I के अनुसरण में उपभोक्ता मामले विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के तदर्थ ग्रेड-I (अवर सचिव), श्री एस० एल० मीणा (सी०एस०एल० सं० 2979) को 1-7-1995 से नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री एस० एल० मीणा, अवर सचिव का वेतन 1-7-1995 से अर्थात् ग्रेड में उनकी नियमित नियुक्ति की तिथि से नौशनल आधार पर नियत किया जाएगा और वेतन व भत्तों का बकाया उनके अवर सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से स्वीकार्य होगा।

एस० के० नायक, अवर सचिव

सं० ए-12015/3/2001-प्रशासन—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21-4-2004 के कार्यालय ज्ञापन सं० 4/7/2003-सी०एस०-I के अनुसरण में उपभोक्ता मामले विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के तदर्थ ग्रेड-I (अवर सचिव), श्री ए० के० गंगूली (सी०एस०एल० सं० 3637) को 1-7-1995 से नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री ए० के० गंगूली, अवर सचिव का वेतन 1-7-1996 से अर्थात् ग्रेड में उनकी नियमित नियुक्ति की तिथि से नौशनल आधार पर नियत किया जाएगा और वेतन व भत्तों का बकाया उनके अवर सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से स्वीकार्य होगा।

एस० के० नायक, अवर सचिव

सं० ए-12015/3/2001-प्रशासन—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21-4-2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/7/2003-सी०एस०-I के अनुसरण में उपभोक्ता मामले विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के तदर्थ ग्रेड-I (अवर सचिव), श्री देशबंदु (सी०एस०एल० सं० 3634) को 1-7-1996 से नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री देशबंदु, अवर सचिव का वेतन 1-7-1996 से अर्थात् ग्रेड में उनकी नियमित नियुक्ति की तिथि से नौशनल आधार पर नियत किया जाएगा और वेतन व भत्तों का बकाया उनके अवर सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से स्वीकार्य होगा।

एस० के० नायक, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 2004

सं० ए-11011/4/2002-एन० -- स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशक ने राज कुमारी अमृतकीर नर्सिंग कालेज, नई दिल्ली के अधोलिखित अनुशिक्षकों की उनके नाम के सामने उल्लिखित दिनांक से आगामी आदेशों तक राजकुमारी अमृतकीर नर्सिंग कालेज, नई दिल्ली में 6500-200-10500 रुपए के वेतनमान में वरिष्ठ अनुशिक्षक (सोनियर ट्यूटर), राजपत्रित समूह 'ख' के पद पर सर्ववर्ग नियुक्ति किया है :-

1. श्रीमती सुनीता पटनी 6-9-2003 (पूर्ववर्ती)
2. श्रीमती के० बी० एस० 17-3-2004 (पूर्ववर्ती)

बोधरी

मोहन लाल, उप निदेशक प्रशासन (एन०)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 2004

सं० ए-19011/228/2004-स्था०-5 -- सेवानिवृत्ति की आयु पूरी कर लेने पर, राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग में नियुक्त श्री डी० डी० दोहरे, उपायुक्त (मृदा संरक्षण) (रु० 12000-16500) को 30-04-2004 के अंतराल से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त करते हैं।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 अप्रैल 2004

सं० ए-12026/3/2003 - प्रशासन-1 -- राष्ट्रपति, श्री जे० पी० शर्मा, अवर सचिव (स्वस्थाने) को 25 मार्च

2004 के पूर्वाह्न से 10,000-15,200/- रुपए के वेतनमान में पशुपालन एवं डेयरी विभाग में तदर्थ आधार पर अवर सचिव नियुक्त करते हैं।

राधा शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 मई 2004

सं० ए-12025/15/2003-प्रशासन-1—राष्ट्रपति, श्री विद्युत रंजन आचार्य, सहायक पशुधन अधिकारी को 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में 15 अप्रैल, 2004 (पूर्वाह्न) से 6 माह की अवधि के लिए अर्थात् नियमित अवधियों के जवाइन कर लेने पर, इनमें से जो भी हो, तदर्थ आधार पर इस विभाग में सहायक आयुक्त (पशुधन) के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर० के० शर्मा, अवर सचिव

सं० ए-12025/15/2003-प्रशासन-1—राष्ट्रपति, श्री एम० एम० एम० बेग, सहायक पशुधन अधिकारी को 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में 15 अप्रैल 2004 (पूर्वाह्न) से 6 माह की अवधि के लिए अर्थात् नियमित अवधियों के जवाइन कर लेने पर, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर इस विभाग में सहायक आयुक्त (पशुधन विकास) के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर० के० शर्मा, अवर सचिव

सं० ए-12025/15/2003-प्रशासन-1—राष्ट्रपति, श्री रजनीश कुमार गुप्ता, सहायक पशुधन अधिकारी को 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में 15 अप्रैल, 2004 (पूर्वाह्न) से 6 माह की अवधि के लिए अर्थात् नियमित अवधियों के जवाइन कर लेने पर, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर इस विभाग में सहायक आयुक्त (पशुधन स्वास्थ्य) के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर० के० शर्मा, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल 2004

सं० ए-33021/13/1/1995-स्वच्छता-I—राष्ट्रपति द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार, वैयक्तिक सहायक को दिनांक 21-04-2004 से छह महीने की अवधि या इस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए 6500-200-10,500 रुपए के वेतनमान में इस मंत्रालय के संकल्प में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव (समूह "ख" राजपत्रित के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है।

एच० सी० बवेजा, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 अप्रैल 2004

सं० ए-39013/1/2004-प्रशा०-1—राष्ट्रपति एतद्वारा श्री रमेश चन्द नीगेन, कर्मचारी कोड सं० 4229 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली, में वैज्ञानिक-डी के पद से त्यागपत्र दिनांक 15 अप्रैल, 2004 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

श्याम सुन्दर, संयुक्त निदेशक (प्रशा०)

दिनांक 29 अप्रैल 2004

सं० ए-39013/1/1999-प्रशा०-1—राष्ट्रपति एतद्वारा श्री फाल्गुन, कर्मचारी कोड सं० 1730 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, कर्नाटक राज्य एकक, बंगलूर में वैज्ञानिक-सी के पद से त्यागपत्र दिनांक 28 फरवरी, 2000 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

श्याम सुन्दर, संयुक्त निदेशक (प्रशा०)

सं० ए-39013/1/2000-प्रशा०-1—महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र एतद्वारा सुश्री जयद्विषा, कर्मचारी कोड सं० 5917 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र कर्नाटक राज्य एकक, बंगलूर में वैज्ञानिक अधिकारी/संयोजक ग्रेड-एस बी के पद से त्यागपत्र दिनांक 4 फरवरी 2000 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

श्याम सुन्दर, संयुक्त निदेशक (प्रशा०)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अप्रैल 2004

सं० 4(112)/78-कार्मिक-I—सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में संयुक्त निदेशक श्री अमर नमन शर्मा (कर्मचारी कोड सं० 201) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30-04-04 के अनुरोध से सेवानिवृत्त होंगे।

राजकुमार मनचन्दा, उप निदेशक

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 अप्रैल 2004

सं० 13-9/2002-एसपीजी-I—श्री पी० सी० जैन, सहायक महानिदेशक (योजना) (स्थानापन्न) और डाक विभाग डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 की डाक सेवा समूह ख के अनुमोदित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30 अप्रैल, 2004 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

आर० एस० यादव, सहायक महानिदेशक (एसपीजी)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 7 मई 2004

सं० ई(जीपी) 2002/1/54—राष्ट्रपति जी भारतीय रेलों के बिजली इंजीनियरी विभाग के निम्नलिखित 41 ग्रुप "बी" अधिकारियों की उल्लिखित रेलों पर 01-3-2004 से भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में मूल रूप से नियुक्ति किए जाने का अनुमोदन करते हैं :—

क्रम० सं० अधिकारियों का नाम रेलवे

1 2 3

2002-2003 के लिए पैनल

सर्वश्री

1 यू० एम० शेख	मध्य रेलवे
2 जे० के० गुप्ता	-वही-
3 जी० पी० सिंह	-वही-
4 एम० बी० उन्हावने (अ० जा०)	-वही-
5 पी० टी० अम्बेकर (अ० जा०)	-वही-
6 जी० जे० वानखेडे (अ० ज० जा०)	-वही-
7 डी० के० मोइजा	पूर्व रेलवे
8 रंजीत कुमार राय	-वही-
9 आर० सी० मल्होत्रा	उत्तर रेलवे
10 एन० बह्यो (अ० जा०)	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे
11 आर० बी० स्वामीनाथन	दक्षिण रेलवे
12 जी० मनोहर बाबू (अ० जा०)	दक्षिण मध्य रेलवे
13 एस० के० निमइआर	दक्षिण पूर्व रेलवे
14 वी० बरला (अ० ज० जा०)	-वही-
15 के० के० चौधरी	-वही-
16 एस० के० साहा	-वही-
17 जी० परशुराम	चि०रे०का०
18 एम० आर० मण्डल (अ० जा०)	-वही-
19 एन० संबामूर्ति (अ० जा०)	स०डि०का०
20 के० नागभूषण	रे०प०का०
21 के० आर० सत्यनाथन	-वही-

2003-2004 के लिए पैनल

1 एस० एम० गंगल	मध्य रेलवे
2 एस० जे० चन्दवानी	-वही-
3 सी० एन० ठाकुर	-वही-
4 एल० ए० बरियलानी	-वही-
5 एस० बी० कलकर	-वही-
6 सी० जी० कमल (अ० ज० जा०)	-वही-
7 स्वप्न कुमार चट्टोपाध्याय	पूर्व रेलवे
8 बी० के० किम्बी (अ० जा०)	-वही-

1 2 3

सर्वश्री

9 विद्या भूषण (अ० जा०)	उत्तर रेलवे
10 कदीर अहमद	उत्तर पूर्व रेलवे
11 शारदा प्रसाद (अ० जा०)	-वही-
12 टी० रामाचन्द्रन	दक्षिण रेलवे
13 वी० शिवराम	दक्षिण मध्य रेलवे
14 आर० के० गुहा	दक्षिण पूर्व रेलवे
15 एस० ए० मिस्त्री	पश्चिम रेलवे
16 सी० बी० नम्बियार	-वही-
17 जी० बी० ठाकुर	-वही-
18 एस० के० डी० अग्रवाल	-वही-
19 आर० के० मित्तल	-वही-
20 एस० के० राव	चि०रे०का०

वी० एन० माथुर, सचिव/रेलवे बोर्ड

सं० ई(जीपी) 2001/1/57—राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेल लेखा विभाग के दक्षिण रेलवे की सुश्री एम० एस० मालवी ग्रुप "बी" अधिकारी की 1 फरवरी, 2004 से भारतीय रेल लेखा सेवा के ग्रुप "ए" कनिष्ठ वेतनमान में मूल रूप से नियुक्ति करने के वास्ते सहर्ष अनुमोदन करते हैं।

वी० एन० माथुर, सचिव/रेलवे बोर्ड

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अप्रैल 2004

सं० ए-12031/4/2004-ई-1—राष्ट्रपति, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में उप सचिव (स्व स्वाम्ते) श्री उमा शंकर तिवारी और श्री पी० एस० राणा को दिनांक 25-3-2004 से अगले आदेशों तक तदर्थ आधार पर इसी मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति, अतिरिचित समय के लिए इसी ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केंद्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करती।

3. उप सचिव, श्री उमा शंकर तिवारी और श्री पी० एस० राणा कुछ समय तक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में कार्य करते रहेंगे और प्रशासनिक एजेंसियों की आवश्यकता के कारण इसी दौरान उनके स्वामान्तरण के अलावा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए पदों की निर्दिष्ट संख्या के आवंटन के अनुसार उन्हें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में भेजा जा सकता है।

डा० एन० सी० कौशिक, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 6th May 2004

No. RS/1158/Estt.(G).—Shri Tapan Roy, Deputy Director (S) was relieved from his duties in this Secretariat w.e.f. 20.01.2004(AN), to assist the Hon'ble Minister (Coal & Mines), Ms. Mamta Banerjee in her day to day work till approval of the competent authority for his appointment as OSD to the Hon'ble Minister (C&M), vide this Secretariat Notification of even No. dated 20.1.2004.

2. Since the Appointments Committee of the Cabinet has approved the proposal for his appointment as OSD to the Hon'ble Minister (Coal & Mines), Ms. Mamta Banerjee at the level of Deputy Secretary, he is relieved from his duties in this Secretariat w.e.f. 20.01.2004 (AN) to take up his appointment as OSD to the Minister (Coal & Mines) for a period of four years w.e.f. the date of assumption of charge of the post, or till he ceased to function as OSD to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest. The appointment of Shri Tapan Roy as OSD to the Minister (Coal & Mines) will be co-terminus with the tenure of minister.

RAM BEHARI GUPTA, Under Secy.

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 23rd April 2004

No. F.15/20/2003/AN-I/GN-5150/2004.—Consequent upon their selection to the post of Parliamentary Interpreter Grade-II (Regional Languages) in Lok Sabha Secretariat on the basis of Oration Test held on 11th and 12th January, 2003, Written Test and Simultaneous Interpretation Test held on 13th to 15th June, 2003 and Personal Interview held on 18th July, 2003, the Speaker is pleased to appoint the following persons to the grade of Parliamentary Interpreter Grade-II (Regional Languages) in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in an officiating capacity with effect from the date(s) as mentioned against each until further orders:—

Sl. No.	Name	Language	Date of appointment
1.	Shri Nafis Ahmad	Urdu	01.04.2004 (FN)
2.	Ms. Pritishree Mohanty	Oriya	12.04.2004 (FN)

2. They will be on probation in the grade of Parliamentary Interpreter Grade-II for a period of two years with effect from the respective date(s) of their appointment.

3. Their *inter-se seniority* in the grade of Parliamentary Interpreter Grade-II will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

No. F.15/20.2003/AN-I/GN-5151/2004.—Consequent upon his selection to the post of Parliamentary Interpreter Grade-II (Nepali) in Lok Sabha Secretariat on the basis of Oration, Written, Simultaneous Interpretation Tests conducted between 30-31 August and 2nd September, 2003 and Personal Interview held on 20.10.2003, the Speaker is pleased to appoint Shri Mohan Parasain to the grade of Parliamentary Interpreter Grade-II (Nepali) in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in an officiating capacity with effect from the forenoon of 15.04.2004 until further orders.

2. He will be on probation for a period of two years with effect from 15.04.2004 upto 14.04.2006.

3. His *inter-se seniority* in the grade of Parliamentary Interpreter Grade-II will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 31st March 2003

No. F. 1(5)/65-Admn.—On attaining the age of superannuation, Shri Gopal Dass Talwar, Section Officer, Ministry of Parliamentary Affairs retires from Government Services w.e.f. the afternoon of 31.03.2004.

M.S. CHOPRA, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 30th April 2004

No. A. 19(592)/90-Adm. II.—On attaining the age of superannuation, Shri S.K. Sharma (Grade III of IES), Senior Research Officer, Planning Commission retires from Government Service with effect from 30.04.2004 (AN). Consequently, he has relinquished charge of the post w.e.f. 30.04.2004 (AN).

K.K. CHHABRA, Under Secy.

The 30th April 2004

No. F. 6 (1613)/94-Adm. I.—On attaining the age of superannuation, Dr. N.J. Kurian, HAG officer of IES, Adviser, Planning Commission retires from Government service w.e.f. the afternoon of 30.4.2004.

K.K. CHHABRA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 15th April 2004

No. A-37011/2/2004-Admn. CAS.—The Competent Authority has accepted the notice of voluntary retirement tendered by Shri H.S. Thakur, Section Officer, Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice, relinquished the charge of the post in the said office with effect from the forenoon of the 1st March, 2004 and stands retired from Government service on the aforesaid date..

ANIL KATTIYAR, Dy. Govt. Counsel

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 6th May 2004

No. I-14011/21/2003-IPS.I.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of erstwhile Bihar (undivided) Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the cadre of erstwhile Bihar (undivided) under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) rules, 1954. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

Select List—2000

S. No.	Name of the officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	Prem Prakash Pandey	02.06.1952
2.	Vinoy Kumar Pandey	01.09.1953
3.	Baldeo Prasad	26.07.1962
4.	Dhruv Narayan Gupta	01.09.1950

Consequent upon bifurcation of the State, separate orders allocating cadres of Bihar or Jharkhand respectively to these officers will follow.

S.P. VERMA, Under Secy.

The 6th May 2004

No. I-14011/21/2003-IPS. I.—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 08.03.2004, approved the Select List of year 2000, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 24.12.2003, containing the names of the following State Police Service Officers of erstwhile undivided State of Bihar, towards filling up four substantive vacancies in the IPS Cadre of erstwhile undivided State of Bihar during the year 2000.

S. No.	Name of the officer	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	Prem Prakash Pandey	02.06.1952
2.	Vinoy Kumar Pandey	01.09.1953
3.	Baldeo Prasad	26.07.1962
4.	Dhruv Narayan Gupta	01.09.1950

Consequent upon bifurcation of the State, separate orders allocating cadres of Bihar or Jharkhand respectively to these officers will follow.

S.P. VERMA, Under Secy.

New Delhi, the 11th May 2004

No. 20/G/2522-Ad. I.—The President is pleased to appoint Shri Rajiv Kumar, IFS (HP : 88) as Director in the Ministry of Home Affairs with effect from the afternoon of 30th April, 2004 for a period of five years or until further orders whichever is earlier.

S.K. BHATNAGAR, Under Secy.

New Delhi-1, the 11th May 2004

No. 14031/1/2003-UTS.—On attaining the age of superannuation, Shri Shiv Kumar Chowdhury, Indian Police Service Officer of 1977 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, retired from service in the afternoon of 30th April, 2004.

K.K. KALRA, Under Secy.

No. 14031/1/2003-UTS.—On attaining the age of superannuation, Shri S.P. Singh, Indian Administrative Service Officer of 1986 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, retired from service in the afternoon of 30th April, 2004.

K.K. KALRA, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC
GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 27th April 2004

No. 13017/1/2000-AIS(I).—In exercise of the power conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Assam-Meghalaya and Gujarat, the Central Govt. hereby regularise the period of over stay of Shri Avinash Joshi, IAS (RR:94) on inter cadre deputation from Assam-Meghalaya to Gujarat from 30.10.2003 to 1.12.2003.

K.K. SHARMA, Desk Officer

The 5th May 2004

No. 13017/40/97-AIS(I).—In exercise of the power conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Government of Andhra Pradesh, the Central Govt. hereby regularise the period of over stay of Dr. G.S.G. Ayyangar, IAS (RR:87) on inter cadre deputation from Manipur-Tripura to Andhra Pradesh from 10.7.2003 to 8.9.2003.

K.K. SHARMA, Desk Officer

The 11th May 2004

No. 13013/5/2001-AIS(I).—Under Rule 6 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, the

President is pleased to appoint the following candidates who competed successfully at the Civil Services Examination held in 2000 to the Indian Administrative Services, on probation with effect from the date shown against their names. The cadre allocation of these candidates will be notified in due course.

Sr.No.	Name	Date of Appointment
	S/Shri	
1.	Vijayalakshmi Bidari (Ms.)	2.9.2001 (AN)
2.	Shahla Nigar (Ms.)	2.9.2001 (FN)
3.	Gurkirat Kirpal Singh	2.9.2001 (AN)
4.	Smita Das (Ms.)	2.9.2001 (FN)
5.	Ajay Kumar Shukla	2.9.2001 (FN)
6.	Sridhar Chiruvolu	2.9.2001 (FN)
7.	Arti Kanwar (Ms.)	2.9.2001 (FN)
8.	Vikas Gupta	2.9.2001 (AN)
9.	Amitabh Kaushal	2.9.2001 (FN)
10.	Pardeshi Shrikar Keshav	2.9.2001 (FN)
11.	Darpan Jain	2.9.2001 (AN)
12.	Nidhi Pandey (Ms.)	2.9.2001 (FN)
13.	Nidhi Mani Tripathi (Ms.)	2.9.2001 (FN)
14.	Anu Aggarwal (Ms.)	14.12.2001 (FN)
15.	Krishna Kant Pathak	2.9.2001 (FN)
16.	Ankita Mishra (Ms.)	2.9.2001 (FN)
17.	P. Umanath	2.9.2001 (FN)
18.	T.N. Venkatesh	2.9.2001 (FN)
19.	Navneet Mohan Kothari	2.9.2001 (FN)
20.	R. Meenakshi Sundaram	2.9.2001 (FN)
21.	Asvini Kumar Yadav	2.9.2001 (FN)
22.	Sanjeev Verma	2.9.2001 (FN)
23.	Ekroop Caur (Ms.)	2.9.2001 (FN)
24.	Nipun Vinayak	2.9.2001 (AN)
25.	Mandeep K. Bhandari	2.9.2001 (FN)
26.	Naveen Jain	2.9.2001 (FN)
27.	Shalini Pandit	2.9.2001 (FN)
28.	Lokhande Prashant Sitaram	2.9.2001 (FN)
29.	Aparna U (Ms.)	2.9.2001 (FN)
30.	Christina Zothanpari Chongthu (Ms.)	2.9.2001 (FN)
31.	Neetu Kumari Prasad (Ms.)	6.9.2001 (FN)
32.	Mayank Warwade	2.9.2001 (FN)

Sr.No.	Name	Date of Appointment
33.	Jujjavarapu Balaji	2.9.2001 (FN)
34.	Vijay Nehra	2.9.2001 (FN)
35.	Pankaj Yadav	2.9.2001 (AN)
36.	R. Selvam	3.9.2001 (FN)
37.	Parikipandla Narahari	2.9.2001 (FN)
38.	Anbalagan P.	2.9.2001 (FN)
39.	Kaul Sanjay Moolchand	2.9.2001 (FN)
40.	Santhanagopalan R.	2.9.2001 (FN)
41.	J. Ravi Shankar	10.9.2001 (FN)
42.	Rajesh Kumar	10.9.2001 (FN)
43.	Shashi Bhushan Lal Susheel	2.9.2001 (FN)
44.	Rajendra Ratnoo	2.9.2001 (FN)
45.	S.V.S. Ranga Rao	2.9.2001 (FN)
46.	Lavangare Prajakta Ramchandra (Ms.)	2.9.2001 (FN)
47.	Salim P.B.	2.9.2001 (FN)
48.	R. Kirlosh Kumar	5.9.2001 (FN)
49.	Swamy D.V.	2.9.2001 (AN)
50.	Vijay Dahiya	2.9.2001 (AN)
51.	Amneet Rattan (Ms.)	2.9.2001 (FN)
52.	Priyank Bharti	2.9.2001 (FN)
53.	R. Lalvena	2.9.2001 (FN)
54.	Abhinav Chandra	2.9.2001 (FN)
55.	Nandita Gupta (Ms.)	2.9.2001 (AN)
56.	Mohan Lal Meena	2.9.2001 (FN)

K.K. SHARMA, Desk Officer

No. 13017/12/2003-AIS(I).—In exercise of the power conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Uttar Pradesh and Uttaranchal, the Central Govt. hereby accords ex-post facto approval for deputation of Shri Dayal Singh Nath, IAS (SCS) and Shri Chanar Ram, IAS (SCS) from IAS Cadre of Uttar Pradesh to the IAS Cadre of Uttaranchal for a period of three years with effect from 17.6.2002.

K.K. SHARMA, Desk Officer

No. 14013/05/2000-AIS(III).—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm,

in the Indian Administrative Service, the following member of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Madhya Pradesh with effect from the date shown against him :-

S.No.	Name	Batch	Date of Confirmation
1.	Sh. S.R. Chaurey	1972	08.12.1978

AQEEL AHMAD, Dy. Secy.

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 1st March 2004

No. 13: (F. No. A 38013/7/2003-Ad. I).—Shri R. N. Kiritania, an officer of the Central Secretariat Service, posted as Under Secretary in the Department of Revenue retired from Government Service on 29 February 2004 (AN) on attaining the age of superannuation.

PREETI PANT, Under Secy.

New Delhi, the 19th April 2004

No. 21: (F. No. 50/29/2004-Ad. I).—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 21/10/2004-CS-I dated 25.3.2004, the President is pleased to appoint the following regular Section Officers of the Finance Cadre of the CSS and presently officiating as Under Secretary (in-situ) to Grade-I of the CSS/Under Secretary on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200 in the Department Revenue w.e.f. 25.3.2004 and until further orders.

S. No.	Name of the Under Secretary	CSL No.
1.	Smt. M. Chandrahasan	4022
2.	Shri R.S. Dahiya	4026
3.	Shri Shashi Bhushan Kaushik	4052
4.	Shri Bhagwan Singh	4175
5.	Shri P. Inayagam	4210
6.	Shri V. N. Gaba	4216
7.	Shri R. G. Chhabra	4234
8.	Smt. Vasantha Rama Krishnan	4237
9.	Shri Swaran Dass	4343
10.	Shri V. P. Arora	4679
11.	Shri S. Mohanty	4694
12.	Shri A. Singh	4797
13.	Shri S. K. Kant	4835
14.	Smt. Sushila Kataria	4868
15.	Shri Sushil Kujur	5019
16.	Shri K. C. Meena	5524

2. The above ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service.

R. K. MALHOTRA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 6th May 2004

No. A-12011/2/2004-Admn. II.—The President is pleased to appoint Shri K. Raghuraman, presently Principal Private Secretary (in-situ) of CSSS of Finance Cadre, as Principal Private Secretary on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200 for the period upto 30.06.2004 in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs w.e.f. 26.04.2004(FN).

2. The promotion of Shri K. Raghuraman is purely on ad-hoc basis and shall not confer on him any right to continue indefinitely or to claim seniority in the post/grade of PPS.

I. C. KAMBOJ, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 5th May 2004

F. No. A-32014/2/2004-Cadre.—President is pleased to appoint Shri Arun Banerjee, Assistant of CSS as Section Officer on ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 5th May, 2004. The ad-hoc promotion to the grade of Section Officer will be subject to following conditions;

- (i) The above ad-hoc promotion will be made purely as a stop-gap measure and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's grade.
- (ii) Adhoc arrangement may continue till regular candidate in Section Officer's Grade are available through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointee not qualifying for regular appointment in either of these two categories, he will be reverted to the Assistants Grade on availability of such regular Section Officers.
- (iii) Ad-hoc appointees in the grade of Section Officer may continue to work in the same cadre until further orders. They may, however, be transferred to the other cadres while allocating the revised strength in the grade of Section Officer as a result of cadre restructuring of CSS or in the administrative exigencies.

S. DAS, Under Secy.

New Delhi, the 7th May 2004

F. No. A-32014/2/2004-Cadre.—President is pleased to appoint Smt. Shailja Joshi, Section Officer of CSS as Under Secretary on ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 8th April, 2004. The ad-hoc promotion to the grade of Under Secretary will be subject to following conditions;

- (i) The officer would continue to work in the same Ministry/Department where they are working for the time-being.
- (ii) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I (Under Secretary) of CSS.
- (iii) Ad-hoc appointee may be moved to different Ministries/Departments as and when the allocation of specific number of posts to different Ministries/Departments is done apart from the transfer, which may in the meantime be necessitated due to administrative exigencies.

2. Smt. Joshi is posted in DGS&D

S. DAS, Under Secy.

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY
AND PROMOTION)

New Delhi, the 7th April 2004

No. A-12023/02/2002-E.I.—The President is pleased to appoint the following Assistants of the Central Secretariat Service cadre of the Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry, as Section Officers in the same cadre on ad-hoc basis until further orders :-

S. No.	Name	Ministry/Deptt./Office where working
	S/Shri	
1.	S. K. Srivastava	D/o IP&P
2.	M. C. Sharma	M/o FPI
3.	Amarendra Singh	D/o IP&P
4.	R. K. Srivastava	M/o SSI & ARI
5.	B. B. Biswas	M/o SSI & ARI
6.	V. K. Srivastava	D/o HI
7.	Rahul Mahna	O/o EA
8.	Dinesh Kumar	O/o DC (SSI)
9.	Samsul Haque	Tariff Commission
10.	A. K. Mishra	Tariff Commission
11.	Puneet Sharma	D/o IP&P
12.	Dalpat Singh	D/o IP&P

S. No.	Name	Ministry/Deptt./Office where working
13.	S. P. Chopta	M/o SSI & ARI
14.	S. R. Meena	M/o FPI
15.	S. C. Saxena	D/o IP&P
16.	S. L. Aggarwal	D/o HI
17.	Smt. U.na Mathur	D/o IP&P

2. The ad-hoc promotion of the officers to the grade of Section Officer is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right on the officers to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's grade, which is further subject to the conditions laid down in DOPT's O.M. No. 21/9/2004-CS. I, dated 25th March, 2004.

J. J. KAUR, Under Secy.

The 12th April 2004

No. A-19011/383/90-E.I.—Consequent on completion of his Central tenure, Shri A. E. Ahmad, IAS(MT:76), relinquished the charge of the post of Joint Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, with effect from the afternoon of 11th April, 2004.

Shri A. E. Ahmad is granted Earned Leave for 26 days from 12th April, 2004 to 7th May, 2004 with permission to suffix 8th & 9th May, 2004, being closed holidays. The services of Shri A.E. Ahmad are placed at the disposal of his parent cadre, i.e., the State Government of Manipur of expiry of the Earned Leave.

J. J. KAUR, Under Secy.

The 15th April 2004

No. A-12023/01/2004-E.I.—The President is pleased to appoint Ms. Manisha Sensarma an officer of the Indian Economic Service as Deputy Director in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry with effect from the forenoon of 13.04.2004, until further orders.

J. J. KAUR, Under Secy.

The 21st April 2004

No. A-12023/02/2002-E.I.—The President is pleased to appoint the following Assistants of the Central Secretariat Service cadre of the Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry, as Section

Officers in the same cadre on ad-hoc basis until further orders :-

S. No.	Name	Ministry/Deptt./Office where working
	S/Shri	
1.	S. K. Srivastava	D/o IP&P
2.	M. C. Sharma	M/o FPI
3.	Amarendra Singh	D/o IP&P
4.	R. K. Srivastava	M/o SSI & ARI
5.	B. B. Biswas	M/o SSI & ARI
6.	V. K. Srivastava	D/o HI
7.	Rahul Mahna	O/o EA
8.	Dinesh Kumar	O/o DC (SSI)
9.	Samsul Haque	Tariff Commission
10.	S. P. Chopta	M/o SSI & ARI
11.	A. K. Mishra	Tariff Commission
12.	Puneet Sharma	D/o IP&P
13.	Dalpat Singh	D/o IP&P
14.	S. R. Meena	M/o FPI
15.	S. C. Saxena	D/o IP&P
16.	S. L. Aggarwal	D/o HI
17.	Smt. Uma Mathur	D/o IP&P

2. The ad-hoc promotion of the officers to the grade of Section Officer is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right on the officers to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's grade, which is further subject to the conditions laid down in DOPT's O.M. No. 21/9/2004-CS. I, dated 25th March, 2004.

3: This is in supersession of this Department's Notification of even number dated 7th April, 2004.

J. J. KAUR, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 5th May 2004

No. 5/2004 (A-42011/42/2003-Estt.).—The President is pleased to appoint the following Under Secretaries (in-situ) of Central Secretariat Service in the Ministry of Textiles as Under Secretary on ad-hoc basis with effect from the 24th March, 2004, in pursuance of Department of Personnel and Training's O.M. No. 21/10/2004-CS I, dated the 24th March, 2004 :-

S. No.	Name of the Officer
1.	Shri A. K. Sharma
2.	Shri V. K. Gupta
3.	Shri S. K. Arora
4.	Shri Oma Nand
5.	Shri P. L. Verma
6.	Shri N. K. Raghunathan

2. The ad-hoc appointment of the above officers is subject to the following :

- The officers would continue to work in the same Ministry/Department for the time-being;
- The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I (Under Secretary) of CSS;
- They may be moved to different Ministries/Departments as and when the allocation of specific number of posts to different Ministries/Departments is done apart from the transfer, which may in the meantime be necessitated due to administrative exigencies.

3. In terms of Department of Personnel and Training's O.M. No. 21/10/2004-CS I, dated the 24th March, 2004, the posts of Section Officer, which were upgraded to the level of Under Secretaries as personal to these officers would be demitted by them and to the extent the ad-hoc appointments are now notified, a corresponding number of posts of Under Secretaries would be deemed to have been created.

R. SUBRAHMANYAM, Director

No. 6/2004 (A-42011/42/2003-Estt.).—The President is pleased to appoint the following Deputy Secretaries (in-situ) of Central Secretariat Service in the Ministry of Textiles as Deputy Secretary on ad-hoc basis with effect from the 24th March, 2004, in pursuance of Department of Personnel and Training's O.M. No. 21/11/2004-CS I, dated the 24th March, 2004 :-

S. No.	Name of the Officer
1.	Ms. Sarita Mittal
2.	Shri Prem Sagar

2. The ad-hoc appointment of the above officers is subject to the following :

- The officers would continue to work in the same Ministry/Department for the time-being;
- The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade;
- They may be moved to different Ministries/Departments as and when the allocation of specific number of posts to different Ministries/Departments is done apart from the transfer, which may in the meantime be necessitated due to administrative exigencies.

3. In terms of Department of Personnel and Training's O.M. No. 21/11/2004-CS I, dated the 24th March, 2004,

the posts of Under Secretary, which were upgraded to the level of Deputy Secretaries as personal to these officers would be demitted by them and to the extent the ad-hoc appointments are now notified, a corresponding number of posts of Under Secretaries would be deemed to have been created.

R. SUBRAHMANYAM, Director

MINISTRY OF COAL & MINES
(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi, the 30th April 2004

No. 12/3/2004-ASO.—The President is pleased to appoint Sh. Tapan Roy, Deputy Director, Rajya Sabha Secretariat as Officer on Special Duty to the Minister of Coal & Mines (Ms. Mamata Banerjee) at the level of Deputy Secretary with effect from 21.1.2004 for a period of 4 years or till he ceases to function as Officer on Special Duty to the Minister for Coal & Mines or until further orders, whichever event occurs the earliest. The appointment of Shri Tapan Roy as OSD to Minister for Coal & Mines will be co-terminus with the tenure of Minister.

T. K. GHOSH, Director

No. 12/5/2004-ASO.—The President is pleased to appoint Shri S.K. Thade, IAS(WB : 89) as Officer on Special Duty to the Minister of Coal & Mines (Ms. Mamata Banerjee) at the level of Director with effect from 28.4.2004 (AN) for a period of 5 years or till he ceases to function as Officer on Special Duty to the Minister for Coal & Mines or until further orders, whichever event occurs the earliest. The appointment of Shri S.K. Thade as OSD to Minister for Coal & Mines will be coterminus with the tenure of Minister.

T.K. GHOSH, Director

New Delhi, the 11th May 2004

No. C-20011/1/2001-Admn.—In pursuance of Department of Personnel and Training's O.M. No. 21.09.2004-CS. I dated the 25th March, 2004 and subject to the terms and conditions mentioned therein, the President is pleased to appoint following Assistants of this Department to the post of Section Officer in the pay scale of Rs.6500-200-10,500/- on ad-hoc basis w.e.f. 25th March, 2004 (FN) and until further orders :—

1. Smt. Geeta Mishra
2. Shri Vijay Singh
3. Shri Jasbir Singh
4. Shri P.K. Bhatnagar
5. Shri S.K. Bansal
6. Smt. Subhash Sharma.

GARGI MUKERJEE, Director

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 31st March 2004

No. 2(2)/2004-Estt.—The following Section Officers of the CSS cadre of the Ministry of Steel and currently officiating as Under Secretary (*in situ*) on a personal up-gradation basis in the Ministry of Steel have relinquished this appointment with effect from 25.3.2004 :

Sarvashri
Shiv Kumar
Smt. Sunita
A.D. Roy
T.V.A. Ram
Ranjit Singh and
A.K. Ekka

The President is also pleased to appoint on an *ad hoc* basis the above mentioned officers as Under Secretary in the Ministry of Steel with effect from 25.3.2004 till regular candidates become available for appointment as Under Secretaries on their inclusion in the select list of grade-I of the CSS or until further orders whichever is earlier :

The *ad hoc* promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the select list for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of the CSS.

BABOO RAM, Under Secy.

MINISTRY OF DISINVESTMENT

New Delhi-110 003, the 6th May 2004

No. 19011/7/2000-Admn.—The President is pleased to appoint Shri S.K. Bandyopadhyay, Deputy Secretary (*in situ*) in the Ministry of Disinvestment as Deputy Secretary on purely ad-hoc basis in the Ministry of Disinvestment in the scale of pay of Rs. 12000-375-16,500/- with effect from the forenoon of 25th March, 2004.

2. The post of Under Secretary which was upgraded to the level of deputy Secretary as personal to Shri Bandyopadhyay would be demitted by him and one post of Deputy Secretary would be deemed to have been created from 25.03.04.

3. The appointment of Shri Bandyopadhyay to the grade of Deputy Secretary is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right on him to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade, which is further subject to the conditions laid down in DOPT'S O.M. No. 21/11/2004-CS. I, dated 25th March, 2004.

J.K. CHATTOPADHYAY, Under Secy.

New Delhi-110003, the 6th May 2004

No. 9(3)/2004-Admn.—In pursuance of Department of Expenditure's O.M. No. A-32022/1/2004-CAS dated 26th April, 2004, the President is pleased to appoint Shri Maninder Jit Singh, PPS (in-situ) of Central Secretariat Stenographers' Service Cadre as Principal Private Secretary on purely ad-hoc basis in the Ministry of Disinvestment in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the afternoon of 31.03.2004.

S.K. BANDYOPADHYAY, Dy. Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 5th May 2004

F. No. A-43011/34/98-Estt.—The President is pleased to promote Shri B.S. Kardam and Shri Bashir Ahmed, Senior Technical Assistant Grade-II as Senior Technical Assistant Grade-I (Group 'B', Gazetted) in the Department of Consumer Affairs, in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500, with effect from the forenoon of 26th February, 2004, on purely ad-hoc basis, for a period of one year or till regular incumbents are available, whichever is earlier.

2. The above ad-hoc promotion would not bestow upon Shri B.S. Kardam and Shri Bashir Ahmed any claim for regular appointment, seniority, confirmation etc. in the grade of Senior Technical Assistant Grade-I.

S.K. NAYAK, Under Secy.

No. A.12015/3/2001-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training O.M. No. 4/7/2003-CS. I dated 21.4.2004, the President is pleased to appoint Shri S.L. Meena (CSL No. 2979), ad hoc Grade-I of CSS (Under Secretary) in the Department of Consumer Affairs as grade I of CSS (Under Secretary) on regular basis w.e.f. 1.7.1995.

2. The pay of Shri S.L. Meena, Under Secretary will be fixed w.e.f. 1.7.1995 i.e. the date of his regular appointment in the grade on notional basis, and arrears of pay and allowances will be admissible from the date of his taking over charge of the post of Under Secretary.

S.K. NAYAK, Under Secy.

No. A.12015/3/2001-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training O.M. No. 4/7/2003-CS. I dated 21.4.2004, the President is pleased to appoint Shri A.K. Ganguly (CSL No. 3637), ad hoc Grade-I of CSS (Under Secretary) in the Department of Consumer Affairs as Grade I of CSS (Under Secretary) on regular basis w.e.f. 1.7.1996.

2. The pay of Shri A.K. Ganguly, Under Secretary will be fixed w.e.f. 1.7.1996 i.e. the date of his regular appointment in the grade on notional basis, and arrears of

pay and allowances will be admissible from the date of his taking over charge of the post of Under Secretary.

S.K. NAYAK, Under Secy.

No. A.12015/3/2001-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training O.M. No. 4/7/2003-CS. I dated 21.4.2004, the President is pleased to appoint Shri Desh Bandhu (CSL No. 3694), ad hoc Grade-I of CSS (Under Secretary) in the Department of Consumer Affairs as Grade I of CSS (Under Secretary) on regular basis w.e.f. 1.7.1996.

2. The pay of Shri Desh Bandhu, Under Secretary will be fixed w.e.f. 1.7.1996 i.e. the date of his regular appointment in the grade on notional basis, and arrears of pay and allowances will be admissible from the date of his taking over charge of the post of Under Secretary.

S.K. NAYAK, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES)

New Delhi, the 6th May 2004

No. A.11011/04/2002-N.—The Director General of Health Services is pleased to appoint the undermentioned Tutors, RAK College of Nursing New Delhi to the post of Senior Tutor Group "B" Gazetted in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- in RAK College of Nursing, New Delhi with effect from the date shown against their names until further orders.

1. Smt. Sunita Patney 5.9.2003 (Forenoon)
2. Smt. K.V.S. Chaudhary 17.3.2004 (Forenoon)

MOHAN LAL, Dy. Director Admn.(N)

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND
COOPERATION)

New Delhi, the 30th April 2004

No. 19011/228/2004-E.V.—The President is pleased to retire Shri D.D. Dohare, a regular Deputy Commissioner (Soil Conservation) (Rs. 12000-16500/-) in the Department of Agriculture & Cooperation from Government service with effect from the afternoon of 30.04.2004 on his attaining the age of superannuation.

K.D. UPRETI, Under Secy.

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY &
DAIRYING

New Delhi, the 29th April 2004

No. A-12026/3/2003-Admn.-I.—The President is pleased to appoint Shri J.P. Sharma, Under Secretary (in-situ) on ad hoc basis in the Department of Animal Husbandry & Dairying with effect from the forenoon of 25th March, 2004, in the pay scale of Rs. 10000-15200/-.

RADHA MANI, Under Secy.

New Delhi, the 05th May 2004

No. A.12025/15/2003-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri Bidyut Ranjan Acharya, Assistant Livestock Officer as Assistant Commissioner (Rinderpest) on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- in this Department for a period of six months effect from 15th April 2004 (F.N.) or till the regular incumbent joins, whichever is earlier.

R.K. SHARMA, Under Secy.

No. A. 12025/15/2003-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri M.M.M. Beg, Assistant Livestock Officer as Assistant Commissioner (Cattle Development) on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- in this Department for a period of six months effect from 15th April 2004 (F.N.) or till the regular incumbent joins, whichever is earlier.

R.K. SHARMA, Under Secy.

No. A.12025/15/2003-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri Rajneesh Kumar Gupta, Assistant Livestock Officer as Assistant Commissioner (Livestock Health) on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- in this Department for a period of six months effect from 15th April 2004 (F.N.) or till the regular incumbent joins, whichever is earlier.

R.K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 22nd April 2004

No. A. 3202113/1/1995-E.II.—The President is pleased to appoint Shri Rajendra Kumar, personal Assistant to the post of Private Secretary (Group 'B', Gazetted) of CSSS in the cadre of this Ministry purely on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- for a period of six months with effect from 21.04.2004 or till the regular incumbent joins the post, whichever earlier.

H.C. BAVEJA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY(DEPARTMENT OF INFORMATION
TECHNOLOGY)

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110 003, the 27th April 2004

No. A-39013/1/2004-Admn.-I—President is pleased to accept the resignation of Shri Ramesh Chand Nougain, Emp-Code-4229, from the post of Scientist 'D' National Informatics Centre Hqrs. New Delhi, with effect from the afternoon of 15th April 2004 and he is relieved of his duties from the same day.

SHYAM SUNDER, Joint Director (Admn.)

The 29th April 2004

No. A-39013/1/1999-I—President is pleased to accept the resignation of Shri Phalguna, Emp-Code-1730, from the post of Scientist 'C', NIC Karnataka State Unit, Bangalore, with effect from the afternoon of 28th February 2004 and he is relieved of his duties from the same day.

SHYAM SUNDER, Jt. Director (Admn.)

No. A-39013/1/2000-Admn.-I—Director General, National Informatics Centre is pleased to accept the resignation of Ms. Udaya Priya, Emp-Code-5017, from the post of Scientific Officer/Engineer Grade 'SB', Karnataka State Unit, Bangalore, with effect from the afternoon of 4th February 2000 and she is relieved of her duties from the same day.

SHYAM SUNDER, Jt. Director (Admn.)

New Delhi-110003, the 30th April 2004

No.4(112)/78-Pers.I:—On attaining the age of superannuation, Shri A.N.Sharma, Joint Director(Emp. Code No. 201) in the Department of Information Technology will be retiring from service with effect from the afternoon of 30.04.2004.

R.K. MANCHANDA, Dy. Director

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-01, the 29th April 2004

No. 13-09/2002-SPG.—Sri P.C. Jain, Assistant Director General (Planning) (Officiating) and an approved P.S. Group B officer, Department of Posts, Dak Bhawan, Sansad Marg, New Delhi-01 is retiring from Government Service with effect from 30.04.2004 (A/N) on attaining the age of superannuation.

YADAV
Asth. Director General (SPG)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 07th May 2004

No.E(GP)2002/1/54—The President is pleased to approve of the undermentioned 41 Group 'B' officers of Electrical Engineering Department of Indian Railways, being appointed substantively to the Junior Scale of the Indian Railway Service of Electrical Engineers with effect from 01.03.2001 on the Railway/Production Unit noted against each.

S.No.	Name of the Officer	Railway/ Production Unit
	S/Shri	
	Panel for 2002-03	
1.	U.M. Sheikh	CR
2.	J.K. Gupta	-do-

S.No.	Name of the Officer	Railway/ Production Unit.
	S/Shri	
3.	G.P. Singh	-do-
4.	M.B. Unhavan (SC)	-do-
5.	P.T. Abhyankar (SC)	-do-
6.	G.J. Wankhede (ST)	-do-
7.	D.K. Moitra	ER
8.	Ranjit Kr. Roy	-do-
9.	R.C. Malhotra	NR
10.	N. Brahma (SC)	NFR
11.	R.V. Swaminathan	SR
12.	G. Manohara Babu (SC)	SCR
13.	S.K. Nimaiyar	SER
14.	B. Barla (ST)	-do-
15.	K.K. Choudhury	-do-
16.	S.K. Saha	-do-
17.	G. Parasuram	CLW
18.	M.R. Mondal (SC)	-do-
19.	N. Sambamurthy (SC)	ICF
20.	K. Nagabhushana	RWF
21.	K.R. Satyanathan	-do-
Panel for 2003-04		
1.	S.M. Gangal	CR
2.	S.J. Chandwani	-do-
3.	C.N. Thakur	-do-
4.	L.A. Warialani	-do-
5.	S.B. Kalkar	-do-
6.	C.G. Dhumal (ST)	-do-
7.	Swapan Kr. Chattopadhyay	ER
8.	B.K. Mistry (SC)	-do-
9.	Vidya Bhushan (SC)	NR
10.	Quadeer Ahmad	NER
11.	Sharda Prasad (SC)	-do-
12.	T. Ramachandran	SR
13.	V. Sivaram	SCR
14.	R.K. Guha	SER

S.No.	Name of the Officer	Railway/ Production Unit.
	S/Shri	
15.	S.A. Mistry	WR
16.	C.B. Nambiar	-do-
17.	G.B. Thakur	-do-
18.	S.K.D. Agarwal	-do-
19.	R.K. Mittal	-do-
20.	S.K. Rao	CLW

V.N. MATHUR
Secretary/Railway Board

No. E(GP)2002/1/57—The President is pleased to approve of Ms. M.S. Malathy, a Group 'B' officer of Accounts Department of Southern Railway, being appointed substantively to the Junior Scale of the Indian Railway Accounts Service (IRAS) with effect from 01.02.2004, on that Railway.

V.N. MATHUR
Secretary/Railway Board

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 29th April 2004

No. A-12031/4/04-E-I—The President is pleased to appoint Shri U.S. Tiwari and Shri P.S. Rana, Deputy Secretaries (in-situ) in the Ministry of Road Transport & Highways as Deputy Secretaries in the same Ministry on ad-hoc basis w.e.f. 25.3.2004 until further orders.

2. The ad-hoc promotion shall not confer any right on them to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade of CSS.

3. Shri U.S. Tiwari and Shri P.S. Rana, Deputy Secretaries shall continue to work in the Ministry of Road Transport & Highways for the time-being and they may be moved to different Ministries/Department as and when the allocation of specific number of posts to different Ministries/Departments is done apart from the transfer, which may in the meantime be necessitated due to administrative exigencies.

DR. N.C. KAUSHIK, Under Secy.